

जनपद बाराबंकी

दिनांक 04.10.2021

थाना बड़डूपुर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए चार शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात, 43 ग्राम स्मैक, दो तमंचा, एक चाकू, चोरी करने के उपकरण व 6690 रुपये नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा वांछित/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अवधेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बड़डूपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा वांछित/सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना बड़डूपुर पुलिस टीम द्वारा बाबाकुटी शारदा नहर पुल से रीवां सीवां पुल की तरफ जाने वाले खड़न्जा मार्ग के किनारे चोरी की योजना बनाते हुए शातिर अभियुक्तगण 1. आजाद गिरि पुत्र प्रेमचन्द्र गिरि 2. दीपक पुत्र बेचेलाल रावत निवासीगण ग्राम गौरभारी थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी 3. मो० अफजाल पुत्र मो० जुबैर 4. राजेन्द्र पुत्र भगवानदीन निवासीगण लवलाई, काशीराम कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ को आज दिनांक 04.10.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के विभिन्न जेवरात, 6690/-रुपये नगद, दो अदद तमंचा मय कारतूस, एक अदद चाकू, 43 ग्राम स्मैक, चोरी करने के उपकरण, दो मोबाइल व मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बड़डूपुर पर मु०अ०सं० 181/2021 धारा 401 भा०द०वि०, मु०अ०सं० 182/2021 धारा 41/411 भादवि, मु०अ०सं० 183,185/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आजाद व अफजाल एवं मु०अ०सं० 184/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं स्वीकार की गयी है। जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. वादी श्री लवकुश कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी बिबियापुर मजरे कलां थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25/26.09.2021 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके पैन्ट की जेब से मोबाइल व 10,500/- रुपये चोरी कर लिया गया। इस सूचना के आधार पर थाना बड़डूपुर पर मु०अ०सं० 179/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

2. वादी श्री शारदा बक्श सिंह पुत्र शंकर बक्स सिंह निवासी मीठी माता मन्दिर काजीपुर-1 कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 18.05.2021 को अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर से जेवरात व 25 हजार रुपये चोरी कर लिया गया। इस सूचना के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 179/2021 धारा 457/380 पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आजाद गिरि पुत्र प्रेमचन्द्र गिरि निवासी ग्राम गौरभारी थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
2. दीपक पुत्र बेचेलाल रावत निवासी ग्राम गौरभारी थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
3. मो० अफजाल पुत्र मो० जुबैर निवासी लवलाई थाना चिन्हट जनपद लखनऊ।
4. राजेन्द्र पुत्र भगवानदीन निवासी लवलाई, काशीराम कलोनी थाना चिन्हट जनपद लखनऊ।

बरामदगी-

1. 02 अदद मोती माला, 01 मंगलसूत्र, 02 अदद टप्स, 02 मांग बेदी, 01 हार, 01 लाकेट, 01 ताबीज सफेद धातु, 03 सिक्का सफेद धातु, 04 अंगूठी पीली धातु, 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 3500/- रुपये (सम्बन्धित मु०अ०सं० 179/21 धारा 457/380 भादवि थाना फतेहपुर)
2. 3190/-रुपये (सम्बन्धित मु०अ०सं० 179/21 धारा 379 भादवि थाना बड्डूपुर)
3. 02 अदद अवैध तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
4. 01 अदद नाजायज चाकू
5. 43 ग्राम स्मैक
6. दो अदद मोबाइल
7. मोटर साइकिल H.F. डीलक्स हीरो UP41AJ0558
- 02 मोती माला 01 मंगलसूत्र, 02

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष बड्डूपुर श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री राधेश्याम गुप्ता, उ०नि० श्री बलराम थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री गोविन्द सिंह थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
4. हे०का० रामस्वरूप वर्मा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
5. का० आदित्य प्रताप सिंह, का० हरिनाम थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।